

Deu

Chapter 23

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
ס :יהוה: בקהל שפכה וקרית דכא פצוע- יבא לא-
स यहोवा-की सभा-में लिंग और-कटा-हुआ अंडकोष कुचला- आएगा नहीं-
[H3068](#) [H6951](#) [H8212](#) [H3772](#) [H1795](#) [H6481](#) [H0935](#) [H3808](#)

“ये लोग इस्राएल के लोगों के साथ यहोवा की उपासना करने के लिये नहीं आ सकते: वह व्यक्ति जिसने अपने को बधिया कर लिया है, वह व्यक्ति जिसने अपना यौन अंग कटवा लिया है

2
בקהל לו יבא לא- עשירי הור גם יהוה בקהל ממזר יבא לא-
सभा-में उसे आएगा नहीं- दसवीं पीढ़ी भी यहोवा-की सभा-में नाजायज़ आएगा नहीं-
[H6951](#) [H0935](#) [H3808](#) [H6224](#) [H1755](#) [H1571](#) [H3068](#) [H6951](#) [H4464](#) [H0935](#) [H3808](#)

ס :יהוה:
स यहोवा-की
[H3068](#)

या वह व्यक्ति जो अविवाहित माता—पिता की सन्तान हो। इस व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति दसवीं पीढ़ी तक भी यहोवा के लोगों में यहोवा की उपासना करने के लिये नहीं गिना जा सकता।

3
להם יבא לא- עשירי הור גם יהוה בקהל ומואבי עמוני יבא לא-
उन्हें आएगा नहीं- दसवीं पीढ़ी भी यहोवा-की सभा-में और-मोआबी अम्मोनी आएगा नहीं-
[H1992](#) [H0935](#) [H3808](#) [H6224](#) [H1755](#) [H1571](#) [H3068](#) [H6951](#) [H4125](#) [H5984](#) [H0935](#) [H3808](#)

בקהל עולם: ער- יהוה בקהל
सभा-में सदा जब-तक- यहोवा-की सभा-में
[H5769](#) [H5704](#) [H3068](#) [H6951](#)

“कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा के लोगों से सम्बन्धित नहीं हो सकता और दस पीढ़ियों तक उनका कोई वंशज भी यहोवा के लोगों का भाग यहोवा की उपासना करने के लिए नहीं बन सकता।

4
בצאתכם בקרה ובמים בלחם אתכם קדמו לא- אשר הבר על-
निकलने-में-तुम्हारे रास्ते-में और-पानी-से रोटी-से तुमको आगे-मिले नहीं- जो बात कारण-
[H3318](#) [H1870](#) [H4325](#) [H3899](#) [H0853](#) [H6923](#) [H3808](#) [H1697](#)

נהרםאראם מפתור בעור בן- בלעם את- עליך שבר ממזרים
अराम-नहरायम पतोर-से बओर-का पुत्र- बिलआम को- तेरे-उपर भाड़े-पर-लिया और-जो मिस्रायम-से
[H0763](#) [H6604](#) [H1160](#) [H0853](#) [H4714](#)

לבלעם:
शाप-देने-को-तुझे
[H7043](#)

क्यों? क्योंकि अम्मोनी और मोआबी लोगों ने मिस्र से बाहर आने की यात्रा के समय तुम लोगों को रोटी और पानी देने से इन्कार किया था। वे यहोवा के लोगों के भाग इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने बिलाम को तुम्हें अभिशाप देने के लिए नियुक्त किया था। (बिलाम अपमनहरैम में पतोर नगर के बोर का पुत्र था।)

5
לך אלהיך יהוה ויפתח בלעם אל- לשמע אלהיך יהוה אלה- ולא-
तेरे-लिए एलोहीम-तेरा यहोवा और-पलटा बिलआम को- सुनने-को एलोहीम-तेरा यहोवा चाहा और-नहीं-
[H0430](#) [H3068](#) [H2015](#) [H0413](#) [H8085](#) [H0430](#) [H3068](#) [H0014](#) [H3808](#)

אלהיך יהוה כי לברכה תקלל את-
एलोहीम-तेरा यहोवा प्रेम-करता-है-तुझसे क्योंकि आशीष-में शाप को-
[H0430](#) [H3068](#) [H0157](#) [H1293](#) [H7045](#) [H0853](#)

किन्तु यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की एक न सुनी। यहोवा ने अभिशाप को तुम्हारे लिये वरदान में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है।

6 לֹא- תִדְרֹשׁ שְׁלָמִים וְטַבְתָּם כָּל- יְמֵיךָ לְעוֹלָם: ס
स सदा दिनों-तेरे सब- और-भलाई-उनकी शांति-उनकी खोजेगा नहीं-
H5769 H3117 H3605 H7965 H1875 H3808

तुम्हें अम्मोनी और मोआबी लोगों के साथ शान्ति रखने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जब तक तुम लोग रहो, उनसे मित्रता न रखो।

7 לֹא- תִתְעַב אֲדָמִי כִי אֶחָיִךְ הוּא ס לא- תִתְעַב מִצְרַיִם כִּי- כִי- גַר
परदेशी क्योंकि- मिस्री-से घृणा-करेगा नहीं- स वह भाई-तेरा क्योंकि एदोमी-से घृणा-करेगा नहीं-
H1616 H4713 H8581 H3808 H1931 H0251 H0130 H8581 H3808

הָיִיתָ בְּאֶרְצוֹ: תָּ
था देश-उसके-में
H0776 H1961

“तुम्हें एदोमी से घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारा सम्बन्धी है। तुम्हें किसी मिस्री से घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके देश में तुम अजनबी थे।

8 בְּנִים אֲשֶׁר- יוֹלְדוּ לָהֶם הָיוּ שְׁלִישִׁי יבֵּא לָהֶם בְּקִהְלָה יְהוָה: ס
स स यहीवा-की सभा-में उन्हें आएगा तीसरी पीढ़ी उन्हें जन्मगे जो- पुत्र
H3068 H6951 H0935 H7992 H1755 H3205

एदोमी और मिस्री लोगों से उत्पन्न तीसरी पीढ़ी के बच्चे यहोवा के लोगों के भाग बन सकते हैं।

9 כִּי- תֵצֵא מִחֲנֶה עַל- אִיבֵיךָ וְנִשְׁמַרְתָּ מִכָּל דְּבַר רָע:
जब- जाएगा छावनी-उपर- शत्रुओं-तेरे आँसू-से सब-से बात बुरी
H1697 H3605 H8104 H0341 H4264 H3318

“जब तुम्हारी सेना शत्रु के विरुद्ध जाए, तब तुम उन सभी चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें अपवित्र बनाती हैं।

10 כִּי- יִהְיֶה בְּךָ אִישׁ אֲשֶׁר לֹא- יִהְיֶה טְהוֹר מִקְרָה- לַיְלָה וַיֵּצֵא אֶל-
यदि- होगा जो पुरुष तुझ-में होगा नहीं- जो नहीं- होगा शुद्ध घटना- की रात- और-जाएगा को-
H0413 H3318 H3915 H7137 H2889 H1961 H3808 H0376 H1961

מִחוּץ לַמְּחֵנֶה לֹא יָבֵא אֶל- תּוֹךְ הַמְּחֵנֶה:
बाहर छावनी-के- नहीं आएगा को- बीच के- छावनी-के
H4264 H8432 H0413 H0935 H3808 H4264 H2351

यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कारण अपवित्र है कि उसे रात में स्वप्नदोष हो गया हो तो उसे डेरे के बाहर चले जाना चाहिए। उसे डेरे से दूर रहना चाहिए

11 וְהָיָה לְפָנֹתַי עָרֵב וְרִתְּן בְּמַיִם וַיָּבֵא הַשָּׁמֶשׁ יָבֵא אֶל- תּוֹךְ הַמְּחֵנֶה:
और-होगा और-पर-पानी-से नहाएगा साँझ मुड़ने-पर- को- बीच के- छावनी-के
H4264 H8432 H0413 H0935 H8121 H0935 H4325 H7364 H6153 H6437 H1961

किन्तु जब शाम हो तब उस व्यक्ति को पानी से नहाना चाहिए और जब सूरज डूबे तो उसे डेरे में जाना चाहिए।

12 וַיֵּד וְהָיָה לְךָ מִחוּץ לַמְּחֵנֶה וַיֵּצֵא שָׁמָּה חוּץ:
और-स्थान और-लिपे तू-के- बाहर बाहर वहाँ और-जाएगा बाहर
H2351 H8033 H3318 H4264 H2351 H1961 H3027

“तुम्हें डेरे के बाहर शौच के लिए जगह बनानी चाहिए

13 וַיִּתֵּד וְהָיָה לְךָ עַל- אֲזִנָּה לָּךְ וְהָיָה בְּשִׁבְתְּךָ חוּץ וְשָׁבַת
और-खूटी और-होगा हथियार-तेरे उपर- तू-के- लिए तू-के- लिए और-लौटेगा उससे और-खोदेगा बाहर बैठने-में-तेरे और-होगा और-होगा
H7725 H2658 H2351 H3427 H1961 H0240 H1961 H3489

וְכִסִּיתָ אֶת- צִאְתְּךָ:
और-ढकेगा को- मल-तेरे
H0853 H3680 H6627

और तुम्हें अपने हथियार के साथ खोदने के लिए एक खन्ती रखनी चाहिए। इसलिए जब तुम मलत्याग करो तब तुम एक गका खोदो और उसे ढक दो।

לָפְנֵי אֵיבֵיךָ וְלִתְּתָ וְלִהְצִילֶךָ מִמַּחְנֵה בִּקְרָב וּמִתְּחִלָּה אֱלֹהֶיךָ יְהוָה כִּי 14
 सामने-तेरे शत्रुओं-तेरे और-देने-को बचाने-को-तुझे छावनी-तेरी बीच-में चलता-है एलोहीम-तेरा यहोवा क्योंकि
[H6440](#) [H0341](#) [H5414](#) [H5337](#) [H4264](#) [H7130](#) [H1980](#) [H0430](#) [H3068](#)

ס : מִאֲחֵרֶיךָ וְשָׁב רָבָר עָרַנְתָּ בָּךְ וְרָאָה וְלֹא- קָדָשׁ מִחֲנִיךָ וְיָהוָה
 स पीछे-से-तेरे और-लौटेगा बात-की नंगाई तुझ-में देखेगा और-नहीं- पवित्र छावनी-तेरी और-होगा
[H7725](#) [H1697](#) [H6172](#) [H7200](#) [H3808](#) [H6918](#) [H4264](#) [H1961](#)

क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे डेरे में शत्रुओं को हराने में तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ है। इसलिए डेरा पवित्र रहना चाहिए। तब यहोवा तुम में कुछ भी घृणित नहीं देखेगा और तुम से आँखें नहीं फेरेगा।

לֹא- תִסְבֵּר עֲבָד אֱלֹ- אֲדָנָיו אֲשֶׁר- יַנְצִיל אֱלֹהֶיךָ מֵעַם אֲדָנָיו : 15
 नहीं- सौंपेगा दस को- स्वामी-उसके जो- बचेगा तेरे-पास से-साथ स्वामी-उसके
[H3808](#) [H5462](#) [H5650](#) [H0413](#) [H0113](#) [H5337](#) [H0413](#) [H0113](#) [H0113](#)

“यदि कोई दस अपने मालिक के यहाँ से भागकर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें उस दस को उसके मालिक को नहीं लौटाना चाहिए।

עַמְּךָ יֵשֵׁב בְּקִרְבְּךָ בְּמִקְוֹם אֲשֶׁר- יִבְחַר יְהוָה בְּאֶחָד עִיר לְךָ וְלֹא עִיר אֲחֵרָה 16
 तेरे-साथ रहेगा बीच-तेरे-में स्थान-में जो- चुनेगा एक-में फाटकों-तेरे अच्छे-में उसे नहीं
[H3427](#) [H7130](#) [H4725](#) [H0977](#) [H0259](#) [H8179](#) [H3808](#)

ס : תִּזְכֹּר
 स सताएगा-उसे
[H3238](#)

यह दस तुम्हारे साथ जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। वह जिस भी नगर को चुने उसमें रह सकता है। तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए।

לֹא- תִהְיֶה קְדֻשָּׁה מִבְּנוֹת יִשְׂרָאֵל וְלֹא- יְהוָה יִהְיֶה קְדֻשׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל : 17
 नहीं- होगी वेश्या के-से बेटियों-में-से वेश्या होगी और-नहीं- इस्राएल-की
[H3808](#) [H1961](#) [H6948](#) [H1323](#) [H3478](#) [H3808](#) [H1961](#) [H6945](#) [H3478](#)

“कोई इस्राएली स्त्री या पुरुष को कभी देवदासी या देवदास नहीं बनना चाहिए।

לֹא- תִבְיָא אֶתְנֵן זוֹנָה וּמִתָּר וְכֶלֶב בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְכָל- גֵּר כִּי 18
 नहीं- लाएगा कमाई वेश्या-की और-दाम कुत्ते-का और-दाम वेश्या-की घर यहीवा-के एलोहीम-तेरे सब-को- मन्नत क्योंकि
[H3808](#) [H0935](#) [H0868](#) [H2181](#) [H4242](#) [H3611](#) [H3068](#) [H0430](#) [H3605](#) [H5088](#)

תּוֹעֵבֹת שְׁנֵיהֶם : אֱלֹהֶיךָ גַם- יְהוָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
 घृणा दोनों भी- एलोहीम-तेरे यहोवा-की
[H8441](#) [H3068](#) [H0430](#) [H1571](#) [H8147](#)

देवदास या देवदासी का कमाया हुआ धन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के मन्दिर में नहीं लाया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति दिये गए वचन के कारण यहोवा को दी जाने वाली चीज के लिए इस धन का उपयोग नहीं कर सकता। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर सभी मन्दिरों के देवदास—देवदासियों से घृणा करता है।

לֹא- תִשָּׂא לְאֶחָיֶךָ לְאֶחָיֶךָ גִּשְׁתָּ גִשְׁתָּ כֶּסֶף בְּיָדְךָ וְגַם- כָּל- רָבָר אֲשֶׁר 19
 नहीं- ब्याज-लेगा भाई-तेरे-से ब्याज चाँदी-का ब्याज भोजन-का ब्याज सब- चीज़ जो
[H3808](#) [H0251](#) [H5392](#) [H3701](#) [H5392](#) [H0400](#) [H5392](#) [H3605](#) [H1697](#)

יִשָּׂא :
 लगेगा-ब्याज

“यदि तुम किसी इस्राएली को कुछ उधार दो ते तुम उस पर ब्याज न लो। तुम सिक्कों, भोजन या कोई ऐसी चीज जिस पर ब्याज न लिया जा सके व्याज न लो।

20
 כָּבֵל אֱלֹהִים יְהוָה יִבְרַכְךָ לְמַעַן תִּשְׂבַּח לֹא וְלֹא־חַיִּים תִּשְׁבַּח לְנִבְרֵי
 सब-में एलोहीम-तेरा यहीवा आशीष-देगा-तुझे ताकि ब्याज-लेगा नहीं और-भाई-तेरे-से ब्याज-लेगा परदेशी-से
[H3605](#) [H0430](#) [H3068](#) [H1288](#) [H4616](#) [H3808](#) [H0251](#) [H5237](#)

ס : לְרִשְׁתָּהּ אֲשֶׁר- אֶתְּךָ הָאָרֶץ עַל- וְיָדְךָ מִשְׁלָחַ
 स अधिकार-में-लेने-को-उसे वहाँ आ-रहा-है- तू जिसे- भूमि उपर- हाथ-तेरे-का भेजना
[H3423](#) [H8033](#) [H0935](#) [H0776](#) [H3027](#)

तुम विदेशी से ब्याज ले सकते हो। किन्तु तुम्हें दूसरे इस्राएली से ब्याज नहीं लेना चाहिए। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उस देश में, जहाँ तुम रहने जा रहे, हो जो कुछ तुम करोगे उसमें आशीष देगा।

21
 כִּי- תִדַּר לִיהוָה אֱלֹהֵיךָ לֹא תֵאָחֵר לְשִׁלְמוֹ כִּי- דָרַשׁ
 माँगना क्योंकि- पूरा-करने-को-उसे देरी-करेगा नहीं एलोहीम-तेरे यहोवा-को मन्नत मानेगा यदि-
[H1875](#) [H0309](#) [H3808](#) [H0430](#) [H3068](#) [H5088](#) [H5087](#)

יְדַרְשֶׁנּוּ יְהוָה אֱלֹהֵיךָ מִעֲמֻקֹּתַי וְהָיָה בְךָ חַטָּא:
 माँगेंगे एलोहीम-तेरा यहोवा तुझसे एलोहीम-तेरा तुझ-में और-होगा पाप
[H2399](#) [H1961](#) [H0430](#) [H3068](#) [H1875](#)

“जब तुम यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो, तो जो तुम देने को कहो उन सबको देने में ढीले न पड़ो। यदि तुम वचन दी गई चिज़ों को नहीं दोगे तो पाप करोगे।

22
 וְכִי תִחַדְרֵךְ לְנִדְרֶךָ לֹא- יְהִיָּה בְךָ חַטָּא:
 पाप तुझ-में होगा नहीं- मानने-से रुकेगा और-यदि
[H2399](#) [H1961](#) [H3808](#) [H5087](#) [H2308](#)

यदि तुम वचन नहीं देते हो तो तुम पाप नहीं कर रहे हो।

23
 מוֹצֵא כִּי תִשְׁפֹּחַךְ תִּשְׁמַר וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נִדְרָתָ לְיְהוָה אֱלֹהֵיךָ נְדָבָה אֲשֶׁר
 निकास यदि खेती-तेरे-का होठों-तेरे-का रखेगा और-करेगा जैसा माना यहीवा-को एलोहीम-तेरे स्वेच्छा-से-भेंट जो
[H5071](#) [H0430](#) [H3068](#) [H5087](#) [H8104](#) [H8193](#) [H4161](#)

ס : בְּפִיךָ תִּבְרָךְ
 स मुख-तेरे-से बोला
[H6310](#) [H1696](#)

किन्तु तुम्हें वह चीज़ें करनी चाहिए जिसे करने के लिए तुमने कहा है कि तुम करोगे। जब तुम स्वतन्त्रता से यहोवा अपने परमेश्वर को वचन दो तो, तुम्हें वचन दी गई बात पूरी करनी चाहिए!

24
 כִּי תִבֵּא בְכַרְם וְרֵעֶךָ וְאִכְלֵתָ אֲנָבִים וְכַנְפְּשֵׁי שִׁבְעָה וְאֵל- וְאֵל- כְּלִי
 आएगा यदि दाख-बाग-में पड़ोसी-तेरे-के और-खाएगा अंगूर और-तेरी-जैसी तृप्ति-तेरी और-को- बर्तन-तेरे-में
[H3627](#) [H0413](#) [H7648](#) [H5315](#) [H6025](#) [H0398](#) [H7453](#) [H3754](#) [H0935](#)

ס : תָּמְנִין : לֹא
 स रखेगा नहीं
[H5414](#) [H3808](#)

“यदि तुम दूसरे व्यक्ति के अंगूर के बाग से होकर जाते हो, तो तुम जितने चाहो उतने अंगूर खा सकते हो। किन्तु तुम कोई अंगूर अपनी टोकरी में नहीं रख सकते।

25
 כִּי תִבֵּא בְּקִמְתָּ וְרֵעֶךָ וְקִטְפָתָּ מְלִילֹת בִּידְךָ וְחַרְמוֹשׁ לֹא תִנְיָ עַל
 आएगा यदि खेत-में पड़ोसी-तेरे-के और-तोड़ेगा और-तोड़ेगा बालें हाथ-तेरे-से और-दरंती नहीं चलाएगा उपर
[H3808](#) [H2770](#) [H3027](#) [H4425](#) [H6998](#) [H7453](#) [H7054](#) [H0935](#)

ס : רֵעֶךָ : קִמְתָּ
 स पड़ोसी-तेरे-की खेत
[H7453](#) [H7054](#)

जब तुम दूसरे की पकी अन्न की फसल के खेत से होकर जा रहे हो तो तुम अपने हाथ से जितना उखाड़ा, खा सकते हो। किन्तु तुम हँसिये का उयोग दूसरे के अन्न को काटने और लेने के लिए नहीं कर सकते।